

HMD

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

विषय सूची

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में	5
2 शुरू करें	6
अपने फ़ोन को अद्यतित रखें	6
कुंजियाँ और पुरज़े	6
SIM और मेमोरी कार्ड डालना	7
अपना फ़ोन चार्ज करें	9
फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें	9
टच स्कीर्न का उपयोग करें	10
अपना eSIM उपयोग करें	14
3 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें	15
अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें	15
स्कीर्न लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें	15
अपने फ़ोन को अपने फ़िंगरप्रिंट से सुरक्षित करें	15
अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना	16
अपने खोए हुए फ़ोन को खोजें	17
4 बुनियादी तथ्य	18
अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें	18
नोटिफिकेशन	19
वॉल्यूम नियंत्रित करें	20
स्वचालित लेख सुधार	21
बैटरी लाइफ़	21
वर्चुअल RAM की मदद से अपने फ़ोन की मेमोरी बढ़ाएँ	22
एक्सेस योग्यता	22
5 अपने मित्रों और परिवार के साथ कनेक्ट करें	23
कॉल	23
संपर्क	23
संदेश भेजें	24
मेल	24

6 कैमरा	25
कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें	25
आपके फ़ोटो और वीडियो	25
7 इंटरनेट और कनेक्शन	27
वाई-फ़ाई सक्रिय करें	27
वेब ब्राउज़ करें	27
Bluetooth®	28
NFC	29
VPN	30
8 अपना दिन व्यवस्थित करें	31
दिनांक और समय	31
अलार्म घड़ी	31
कैलेंडर	32
9 मानचित्र	33
स्थान ढूंढें और दिशानिर्देश प्राप्त करें	33
10 ऐप, अद्यतन और बैकअप	34
Google Play से ऐप प्राप्त करें	34
अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें	34
अपने डेटा का बैकअप लें	34
मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से निजी सामग्री हटाएं	35
11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी	36
आपकी सुरक्षा के लिए	36
नेटवर्क सेवाएं और लागतें	38
आपातकालीन कॉल	39
अपने डिवाइस का ध्यान रखें	39
रीसाइकल करना	40
ऐसे डिब्बे वाला प्रतीक जिसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है	40

बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी	41
छोटे बच्चे	42
निकेल	42
चिकित्सा उपकरण	42
प्रत्यारोपण किए गए चिकित्सा उपकरण	42
सुनने की क्षमता	43
अपने डिवाइस की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें	43
वाहन	43
संभावित रूप से विस्फोटक जगहें	44
प्रमाणन जानकारी	44
डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में	45
कॉपीराइट और अन्य नोटिस	45

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में



महत्वपूर्ण: अपने डिवाइस और बैटरी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, डिवाइस को उपयोग में लाने से पहले "उत्पाद और सुरक्षा जानकारी" पढ़ें। अपने नए डिवाइस के साथ आरंभ करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

2 शुरू करें


अपने फ़ोन को अद्यतित रखें

आपके फ़ोन का सॉफ़्टवेयर

अपना फ़ोन अद्यतित रखें और उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अपडेट स्वीकार करें ताकि आपको अपने फ़ोन के लिए नई ओर बेहतर सुविधाएँ मिल सकें. सॉफ़्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है.

कुंजियाँ और पुरज़े

आपका फ़ोन



यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका निम्न मॉडल पर लागू होती है: TA-1600, TA-1688.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. SIM और मेमोरी कार्ड स्लॉट | 7. कस्टम/तत्काल बटन |
| 2. माइक्रोफ़ोन | 8. कैमरा |
| 3. लाउडस्पीकर | 9. ईयरपीस |
| 4. पिछला कवर अनलॉक | 10. निकटता सेंसर |
| 5. कैमरा | 11. वॉल्यूम कुंजियाँ |
| 6. फ्लैश | 12. पावर/लॉक कुंजी, फिंगरप्रिंट सेंसर |

13. USB कनेक्टर

इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरीज़, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।


पार्ट और कनेक्टर, चुंबकत्व

सिग्नल उत्पन्न करने वाले पोर्ट्स कनेक्ट न करें, क्योंकि इससे डिवाइस को क्षति पहुंच सकती है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज वाला स्रोत कनेक्ट न करें। अगर आप ऑडियो कनेक्टर में, इस डिवाइस के साथ इस्तेमाल के लिए स्वीकृति दी गई चीज़ों के अलावा कोई बाह्य डिवाइस या हेडसेट कनेक्ट करते/करती हैं, तो वॉल्यूम के स्तर पर खास ध्यान दें।

डिवाइस के पुर्जे चुंबकीय हैं। धातु वाले मटेरियल इस डिवाइस की ओर आकर्षित हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या चुंबकीय पट्टी वाले अन्य कार्ड लंबे समय तक उपकरण के नजदीक न रखें, क्योंकि इससे आपके कार्ड खराब हो सकते हैं।

SIM और मेमोरी कार्ड डालना

कार्ड डालना



उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

1. सिम और मेमोरी कार्ड का ट्रे खोलें: ट्रे के छिद्र में ट्रे खोलने वाला पिन घुसाएं और ट्रे को बाहर की ओर खिसकाएं।
2. नैनो-SIM को ट्रे में मौजूद SIM स्लॉट में इस तरह डालें कि उसके संपर्क क्षेत्र का रुख ऊपर की तरफ हो।
3. यदि आपके पास ड्यूअल-SIM फ़ोन है, तो दूसरी SIM को SIM2 स्लॉट में रखें।
4. यदि आपके पास मेमोरी कार्ड है, तो इसे मेमोरी कार्ड स्लॉट में रखें।
5. ट्रे को वापस अंदर खिसकाएं।

असली नैनो-SIM कार्ड का उपयोग करें। असंगत सिम कार्ड के उपयोग से कार्ड या डिवाइस को नुकसान हो सकता है और कार्ड पर संग्रहीत डेटा खराब हो सकता है।

जब डिवाइस का उपयोग न किया जा रहा हो, तब दोनों SIM कार्ड एक ही समय पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब एक SIM कार्ड सक्रिय हो, उदाहरण के लिए, कॉल करते समय, तब दूसरा वाला उपलब्ध नहीं होगा।

केवल इस डिवाइस के लिए उपयुक्त और स्वीकृत मेमोरी कार्ड का उपयोग करें। असंगत कार्ड्स के कारण कार्ड और डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है और कार्ड में संग्रहीत डेटा खराब हो सकता है।

यदि आपके पास eSIM कार्ड है

यदि आपके पास फिजिकल सिम कार्ड के बजाय eSIM कार्ड है, तो अपने फ़ोन को चालू करें और फ़ोन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। अपने eSIM को सक्रिय करने में सक्षम होने के लिए, आपको वाई-फाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है। eSIM कार्ड खरीदने के लिए, अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें। ध्यान दें कि यदि आपके पास एकल-सिम वाला फ़ोन है, तो आपके पास एक समय में केवल एक फिजिकल या eSIM वाला सिम कार्ड सक्रिय हो सकता है। यदि आपके पास दो-सिम वाला फ़ोन है, तो आपके पास एक समय में दो फिजिकल सिम कार्ड या एक फिजिकल सिम और एक eSIM सक्रिय हो सकता है। eSIM कार्ड की जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें।



सुझाव: यह जानने के लिए कि क्या आपका फ़ोन 2 सिम कार्ड का उपयोग कर सकता है, बिक्री बॉक्स पर लेबल देखें। यदि लेबल पर 2 IMEI कोड मौजूद हैं, तो आपके पास ड्यूअल-सिम फ़ोन है।



नोट: यदि आपके पास केवल एक सिम ट्रे वाला ड्यूअल सिम फोन है, तो आप एक ही समय में दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते।



महत्वपूर्ण: जब कोई ऐप मेमोरी कार्ड का उपयोग कर रहा हो तो उसे न निकालें। ऐसा करने से मेमोरी कार्ड और डिवाइस को नुकसान हो सकता है तथा कार्ड पर संग्रहीत डेटा भी दूषित हो सकता है।




सुझाव: किसी प्रसिद्ध निर्माता का 1 TB तक का तेज़ माइक्रोएसडी मेमोरी कार्ड उपयोग करें।



नोट: पूर्व-स्थापित सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऐप्स मेमोरी स्पेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयोग करते हैं।

अपना फ़ोन चार्ज करें

बैटरी चार्ज करें



1. दीवार पर लगे पावर आउटलेट में एक संगत चार्जर लगाएं.
2. केबल को अपने फ़ोन से कनेक्ट करें.

आप वायरलेस चार्जिंग का उपयोग कर अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं. वायरलेस चार्जिंग के लिए केवल Qi-संगत चार्जरों का उपयोग करें.

आपका फ़ोन USB-C केबल का समर्थन करता है. आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से USB केबल के ज़रिये भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा.

यदि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, तो चार्जिंग संकेतक के प्रदर्शित होने में कई मिनट लग सकते हैं.

चार्जर मॉडल

अपने डिवाइस को HHAD-033N चार्जर से चार्ज करें। HMD Global इस डिवाइस के लिए अतिरिक्त बैटरी या चार्जर मॉडल उपलब्ध करा सकता है. चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है। इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरीज़, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

जब चार्जर बिक्री बॉक्स में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामिल) और एक USB पावर एडॉप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डिवाइस को चार्ज करें. आप अपने डिवाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो. हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्ति का नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है. आपके डिवाइस की चार्जिंग अनुकूलित करने के लिए 100-240V~50/60Hz 0.8A इनपुट और 15.0V/2.2A आउटपुट वाले पावर एडॉप्टर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.

फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें

अपना फ़ोन चालू करें

जब आप अपना फ़ोन पहली बार चालू करते हैं, तो फ़ोन आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन और फ़ोन सेटिंग सेट अप करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है.

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

1. पावर कुंजी दबाए रखें.
2. अपनी भाषा और क्षेत्र चुनें.
3. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

अपने पिछले फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र करें

आप अपने Google खाते का उपयोग करके किसी पुराने फ़ोन से अपने नए फ़ोन में डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं.

अपने पुराने फ़ोन के डेटा का Google खाते पर बैक अप लेने के लिए, अपने पुराने फ़ोन की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.


अपने पिछले Android™ फ़ोन की ऐप सेटिंग पुनर्स्थापित करें

यदि आपका पिछला फ़ोन Android था और आपने इससे अपने Google खाते पर डेटा का बैक अप लेने की सुविधा सेट कर रखी थी, तो आप अपनी ऐप सेटिंग और पासवर्ड पुनर्स्थापित कर सकते हैं.

1. सेटिंग > पासवर्ड और खाते > खाता जोड़ें > Google पर टैप करें.
2. वह डेटा चुनें, जिसे आप अपने नए फ़ोन पर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं. जैसे ही आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होगा, समन्वयन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी.

अपना फ़ोन बंद करें


अपने फ़ोन को बंद करने के लिए, पावर कुंजी और वॉल्यूम अप कुंजी को एक साथ दबाएं और पावर बंद चुनें.

 **संज्ञाव:** अगर आप पावर कुंजी को दबाकर और अपने फ़ोन को बंद करना चाहते हैं, तो सेटिंग > सिस्टम > जेस्चर > पावर बटन को दबाकर रखें और Assistant के लिए दबाए रखकर चालू करने को बंद करें पर टैप करें.

टच स्कीरन का उपयोग करें


महत्वपूर्ण: टच स्कीरन को खरोच लगने से बचाएँ. टच स्कीरन पर कभी भी वास्तविक पेन, पेंसिल या अन्य नुकीली चीज़ का उपयोग न करें.

किसी आइटम को खींचने के लिए टैप और होल्ड करें




अपनी अंगुली को आइटम पर कुछ सेकंड तक रखें और फिर अपनी अंगुली को स्क्रीन के एक से दूसरे सिरे की ओर सरकाएं.

स्वाइप करें




अपनी अंगुली स्क्रीन पर रखें और उसे अपनी मनचाही दिशा में स्लाइड करें.

किसी लंबी सूची या मेनू को स्क्रॉल करें



अपनी अंगुली को स्क्रीन पर तेज़ी से ऊपर या नीचे सलाइड करें और अपनी अंगुली ऊपर उठा लें. स्क्रॉलिंग बंद करने के लिए, स्क्रीन पर टैप करें.

ज़ूम इन या आउट करें



मानचित्र, फ़ोटो या वेब पृष्ठ जैसे किसी आइटम पर 2 अंगुलियां रखें और अपनी अंगुलियों को अलग-अलग दिशा में या एक साथ सलाइड करें.

स्कीरन अभिविन्यास लॉक करें

स्कीरन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करें, और **ऑटो-रोटेट** > **चालू** पर टैप करें। जब आप अपने फ़ोन को 90 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं, तो स्कीरन अपने आप घूम जाती है।

स्कीरन को पोर्ट्रेट मोड में लॉक करने के लिए स्कीरन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करें और **स्वतः घुमाएं** > **बंद** पर टैप करें।

जेसचर का उपयोग करके नेविगेट करें

जेसचर नेविगेशन का उपयोग करके चालू पर स्विच करने के लिए, **सेटिंग** > **सिस्टम** > **जेसचर** > **नेविगेशन मोड** > **जेसचर नेविगेशन** पर टैप करें।

- अपने सभी ऐप्स देखने के लिए, होम स्कीरन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।
- होम स्कीरन पर जाने के लिए स्कीरन के नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें। आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा।
- यह देखने के लिए कि आपने कौन-से ऐप्स खोले हैं, अपनी उंगली हटाए बिना स्कीरन के नीचे से ऊपर की ओर तब तक स्वाइप करें जब तक कि आपको ऐप्स दिखाई न दें, और फिर अपनी उंगली छोड़ दें। किसी अन्य खुले ऐप पर स्विच करने के लिए, ऐप पर टैप करें। चल रहे सभी ऐप बंद करने के लिए, सभी ऐप को ऊपर स्वाइप करें और **सभी मिटाएं** पर टैप करें।
- पिछली स्कीरन पर वापस जाने के लिए स्कीरन के दाएं या बाएं किनारे से स्वाइप करें। आपका फ़ोन पिछली बार आपकी स्कीरन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है।

कुंजियों का उपयोग करके नेविगेट करें

नेविगेशन कुंजियों को चालू करने के लिए, **सेटिंग्स** > **सिस्टम** > **जेसचर** > **नेविगेशन मोड** > **3-बटन नेविगेशन** पर टैप करें।

- अपने सभी ऐप्स देखने के लिए, होम स्कीरन पर, स्कीरन के नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें।
- होम स्कीरन पर जाने के लिए **●** टैप करें। आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा।
- यह देखने के लिए कि आपने कौन-से ऐप्स खोले हैं, **■** टैप करें। किसी अन्य खुले ऐप पर स्विच करने के लिए, दाएँ स्वाइप करें और ऐप को टैप करें। चल रहे सभी ऐप बंद करने के लिए, सभी ऐप को ऊपर स्वाइप करें और **सभी मिटाएं** पर टैप करें।
- पिछली स्कीरन पर वापस जाने के लिए, **◀** टैप करें। आपका फ़ोन पिछली बार आपकी स्कीरन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है।

अपना eSIM उपयोग करें

अपना eSIM सक्रिय करें

यदि आपने पहली बार फोन का स्विच चालू करते समय अपना eSIM कार्ड सक्रिय नहीं किया है, तो आप इसे सेटिंग में सक्रिय कर सकते हैं। यदि आपके फोन में फिजिकल सिम कार्ड नहीं है, तो आपको अपने eSIM को सक्रिय करने में सक्षम होने के लिए एक वाई-फ़ाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है: सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > इंटरनेट पर टैप करें और वाई-फ़ाई को चालू करें।

1. सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > SIM पर टैप करें। आपको अपने नेटवर्क ऑपरेटर की ओर से प्राप्त कोड दर्ज करें।
2. यदि आपके फोन में फिजिकल सिम कार्ड नहीं है, तो eSIM सेट करें पर टैप करें। यदि आपके फोन में पहले से फिजिकल सिम कार्ड है, तो SIM जोड़ें > eSIM सेट करें पर टैप करें।
3. यदि आपको अपने नेटवर्क ऑपरेटर से OR कोड मिला है, तो इसे अपने फोन से स्कैन करें या मदद चाहिए? पर टैप करें > इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करें और
4. जारी रखें > डाउनलोड करें पर टैप करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि eSIM आपके फोन पर डाउनलोड न हो जाए।
5. सेटिंग और eSIM पर टैप करें और eSIM का उपयोग करें चालू करें।

आपके eSIM के आकार के आधार पर आपके पास इस फोन पर अधिकतम 10 eSIM कार्ड हो सकते हैं। अगर आपके पास आपके eSIM के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, तो सेटिंग में जाकर एक eSIM हटाएँ।

eSIM के बीच स्विच करें

यदि आपके पास कई eSIM कार्ड हैं और आप किसी अन्य eSIM का उपयोग करना चाहते हैं, तो सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > सिम पर टैप करें, उस eSIM पर टैप करें, जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं और eSIM का उपयोग करें चालू करें।

फिजिकल सिम कार्ड पर स्विच करें

1. अपने फोन में सिम कार्ड डालें।
2. फोन eSIM नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जारी रखने के लिए ठीक पर टैप करें।
3. जब फोन सिम कार्ड को पढ़ ले, तो सिम कार्ड पर टैप करें और सिम का उपयोग करें का स्विच चालू करें।

अपने फोन से eSIM हटाएँ

अपने फोन से eSIM कार्ड हटाने के लिए, सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > सिम पर टैप करें, उस eSIM पर टैप करें, जिसे आप हटाना चाहते हैं और eSIM मिटाएं पर टैप करें। हालांकि, ध्यान दें कि इससे आपके नेटवर्क ऑपरेटर से आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। यदि आप हटाए गए eSIM को बाद में अपने फोन में उपयोग करना चाहते हैं, तो अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें।

3 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें

अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें

अपना फ़ोन लॉक करें

यदि आप नहीं चाहते कि जब आपका फ़ोन आपकी जेब या बैग में हो, तब गलती से कॉल हो जाए, तो आप अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक कर सकते हैं।

अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक करने के लिए, पावर कुंजी दबाएं।

कुंजियां और स्क्रीन अनलॉक करें

पावर कुंजी दबाएं और स्क्रीन पर ऊपर की तरफ़ स्वाइप करें। मांगे जाने पर, अतिरिक्त क्रेडेंशियल प्रदान करें।

स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें

आप स्क्रीन अनलॉक करते समय अपने फ़ोन को प्रमाणीकरण का अनुरोध करने के लिए सेट कर सकते हैं।

एक स्क्रीन लॉक सेट करें

1. सेटिंग्स > सुरक्षा और गोपनीयता > डिवाइस अनलॉक > स्क्रीन लॉक पर टैप करें।
2. लॉक का प्रकार चुनें और अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें।

अपने फ़ोन को अपने फ़िंगरप्रिंट से सुरक्षित करें

फ़िंगरप्रिंट जोड़ें

1. सेटिंग्स > सुरक्षा और गोपनीयता > डिवाइस अनलॉक > चेहरा और फ़िंगरप्रिंट अनलॉक पर टैप करें।
2. वह बैकअप अनलॉकिंग विधि चुनें, जिसका उपयोग आप लॉक स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें।


अपने फ़ोन को अपनी उंगली से अनलॉक करें

अपनी पंजीकृत उंगली पावर कुंजी पर रखें।

यदि कोई अंगुली की छाप सेंसर तुरटि है, और आप फ़ोन को किसी भी तरह रिकवर या रीसेट करने के लिए वैकल्पिक साइन-इन विधियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन को अधिकृत कर्मियों द्वारा सर्विस कराने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के निकटतम सेवा केंद्र या अपने फ़ोन डीलर से संपर्क करें।

अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना

चेहरा प्रमाणीकरण सेट अप करें



1. सेटिंग्स > सुरक्षा और गोपनीयता > डिवाइस अनलॉक > चेहरा और फिंगरप्रिंट अनलॉक पर टैप करें.
2. वह बैकअप अनलॉकिंग विधियां चुनें, जिसका उपयोग आप लॉक स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें.

अपनी आंखें खुली रखें और सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा पूरी तरह से देखा जा सकता है और हैट तथा चश्मे जैसी किसी भी वस्तु से ढका हुआ नहीं है.



नोट: अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपने चेहरे का उपयोग करना फिंगरप्रिंट, पैटर्न या पासवर्ड का उपयोग करने से कम सुरक्षित होता है. आपके फ़ोन को आपकी तरह दिखने वाले व्यक्ति या वस्तु द्वारा अनलॉक किया जा सकता है. पीछे की ओर प्रकाश होने पर या बहुत अधिक अंधेरे वा उजाले वातावरण में चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा काम नहीं कर सकती है.

अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपना फ़ोन अनलॉक करना

अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए बस स्क्रीन चालू करें और सामने के कैमरे की ओर देखें.

अगर चेहरे की पहचान करने में कोई त्रुटि हो रही है और आप फ़ोन को रिकवर या रीसेट करने के लिए किसी भी तरीके से साइन-इन की वैकल्पिक विधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फ़ोन की सर्विसिंग करानी होगी. अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के लिए नज़दीकी अधिकृत सेवा सुविधा या अपने फ़ोन के डीलर से संपर्क करें.

अपने खोए हुए फ़ोन को खोजें

अपने फ़ोन का पता लगाएं या उसे लॉक करें

अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप उसे दूरस्थ रूप से खोज सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या मिटा सकते हैं, अगर आपने Google खाते में साइन इन किया है। Google खाते से संबद्ध फ़ोन के लिए मेरा डिवाइस खोजें डिफ़ॉल्ट रूप से चालू होता है।

मेरा डिवाइस खोजें का उपयोग करने के लिए आपका गुम हुआ फ़ोन यह होना चाहिए:

- चालू किया गया
- Google Play पर दृश्यमान है
- Google खाते में साइन इन किया गया
- स्थान चालू किया गया
- मोबाइल डेटा या वाई-फाई से कनेक्टेड
- मेरा डिवाइस खोजें चालू किया गया

जब मेरा डिवाइस खोजें आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको फ़ोन का स्थान दिखाई देता है और फ़ोन पर सूचना प्राप्त होती है।

1. इंटरनेट से कनेक्ट किसी कंप्यूटर/टैबलेट या फ़ोन पर android.com/find खोलें और अपने Google खाते में साइन इन करें।
2. अगर आपके पास एक से अधिक फ़ोन हैं, तो स्क्रीन के ऊपरी भाग में गुम हुए फ़ोन पर क्लिक करें।
3. मानचित्र पर, यह देखें कि फ़ोन कहां है। स्थान अनुमानित होता है और हो सकता है कि यह सटीक न हो।

अगर आपका डिवाइस नहीं मिल सकता है, तो मेरा डिवाइस खोजें उपलब्ध होने पर इसका अंतिम ज्ञात स्थान दिखाएगा। अपने फ़ोन को लॉक करने या मिटाने के लिए, वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

4 बुनियादी तथ्य

अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें

अपना वॉलपेपर बदलें

सेटिंग्स > वॉलपेपर और आइकन > वॉलपेपर और शैली पर टैप करें।

अपने फ़ोन की रिगटोन बदलना

सेटिंग > ध्वनि और कंपन > फ़ोन रिगटोन SIM1 या फ़ोन रिगटोन SIM2 पर टैप करें और टोन चुनें.

अपने संदेश की नोटिफ़िकेशन ध्वनि बदलें

सेटिंग > ध्वनि और कंपन > सामान्य सूचना ध्वनि पर टैप करें.

पौरगारम करने योग्य कुंजियों के प्रकार्य निर्धारित करें


पौरगारम योग्य कुंजियों की सहायता से आप अपने आपातकालीन संपर्कों को शीघ्रता से कॉल कर सकते हैं, या उदाहरण के लिए, ऐप्स खोल सकते हैं।

सेटिंग्स > कस्टम बटन पर टैप करें.

- यह चुनने के लिए कि जब आप पौरगारमेबल कुंजी को दबाकर रखेंगे तो क्या होगा, कस्टम बटन > दबाकर रखें पर टैप करें और उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें। यदि आप आपातकालीन संपर्क डायल करें का चयन करते हैं, तो फ़ोन आपको सीधे अपने आपातकालीन संपर्कों के विवरण जोड़ने देता है, हो सकता है जिसे आपने उन्हें अभी तक नहीं जोड़ा हो. इसके बाद, जब आप पौरगारमेबल कुंजी को दबाकर रखेंगे, तो फोन आपके आपातकालीन संपर्कों में से पहले को कॉल करेगा। यदि जवाब नहीं मिलता है, तो फ़ोन अगले आपातकालीन संपर्क को कॉल करता है. कॉल करने के अलावे, फ़ोन आपके आपातकालीन संपर्कों को एक संदेश में आपके स्थान की एक लिंक भी भेजता है.
- पौरगारम योग्य कुंजी को दो बार दबाने पर क्या होता है, इसका चयन करने के लिए, कस्टम बटन > दो बार दबाएं पर टैप करें और उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें।
- पावर कुंजी को दो बार दबाने पर क्या होता है, इसका चयन करने के लिए, पावर कुंजी > दो बार दबाएँ पर टैप करें और उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें.

नोटिफिकेशन

नोटिफिकेशन फलक का उपयोग करें




संदेश या छूटी कॉल जैसे नए नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर, स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद आइकन दिखाई देते हैं।

नोटिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, स्क्रीन के शीर्ष से नीचे स्वाइप करें। दृश्य बंद करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।


किसी ऐप की सूचना सेटिंग बदलने के लिए, सेटिंग > सूचनाएं > ऐप सूचनाएं > सबसे हाल ही की > सभी ऐप पर टैप करें और ऐप की सूचनाएं चालू या बंद करें।

त्वरित पहुंच आइटम का उपयोग करें



सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए, नोटिफिकेशन पैनल पर मौजूद संबंधित त्वरित पहुंच आइटम पर टैप करें। अधिक आइटम देखने के लिए, मेनू को नीचे की ओर खींचें। इन आइकनों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए या नए आइटम जोड़ने

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

के लिए,  पर टैप करें, किसी आइटम पर टैप करके उसे दबाकर रखें और फिर उसे खींचते हुए किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं.

वॉल्यूम नियंत्रित करें

वॉल्यूम बदलें

यदि आपको शोरगुल वाले परिवेश में अपने फ़ोन की रिंग सुनने में परेशानी हो रही है या कॉल की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप अपने फ़ोन के किनारे स्थित वॉल्यूम कुंजियों का उपयोग करके वॉल्यूम को मनचाहे स्तर पर बदल सकते हैं.



ऐसे उत्पादों के साथ कनेक्ट न करें, जो आउटपुट सिग्नल पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है. ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज स्रोत कनेक्ट न करें. यदि आप ऑडियो कनेक्टर के साथ इस डिवाइस के साथ उपयोग के लिए अनुमोदित डिवाइस या हैडसेट के बजाय कोई बाहरी डिवाइस या हैडसेट कनेक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम स्तरों पर विशेष ध्यान दें.

वॉल्यूम बूस्ट करें




आप बूस्ट मोड से लाउडस्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं.

1. वॉल्यूम अप कुंजी को तब तक दबाएं, जब तक कि आप 100% वॉल्यूम स्तर तक न पहुंच जाएं.
2. ऑडियो बूस्ट मोड चालू करने के लिए वॉल्यूम अप कुंजी फिर से दबाएं. आप केवल लाउडस्पीकर के साथ ऑडियो बूस्ट मोड का उपयोग कर सकते हैं.
3. वॉल्यूम कम करने के लिए, वॉल्यूम डाउन कुंजी दबाएं.

मीडिया और ऐप्स का वॉल्यूम बदलें

1. वॉल्यूम स्तर बार देखने के लिए एक वॉल्यूम कुंजी दबाएं.
2.  पर टैप करें.
3. वॉल्यूम स्तर बार पर स्लाइडर को बाएं या दाएं खींचें.
4.  पर टैप करें.

फ़ोन को मौन पर सेट करें

1. एक वॉल्यूम कुंजी दबाएं.
2.  पर टैप करें.
3. अपने फ़ोन को केवल कंपन पर सेट करने के लिए  पर टैप करें या मौन पर सेट करने के लिए  पर टैप करें.

स्वचालित लेख सुधार

कीबोर्ड और शब्द सुझावों का उपयोग करें

जैसे-जैसे आप लिखते जाते हैं, आपका फ़ोन आपको शब्दों का सुझाव देता जाता है, ताकि आपको अधिक तेज़ी और सटीकता से लिखने में मदद मिले। हो सकता है सभी भाषाओं के लिए शब्द सुझाव उपलब्ध न हों।

जब आप कोई शब्द लिखना शुरू करते हैं, तो आपका फ़ोन संभावित शब्दों का सुझाव देता है। जब सुझाव बार में आपका वांछित शब्द दिखाया जाए, तो उसे चुन लें। और सुझाव देखने के लिए, सुझाव पर टैप करें और दबाकर रखें।



सुझाव: यदि सुझाया गया शब्द बोलूड अक्षरों में चिह्नित है, तो आपका फ़ोन स्वचालित रूप से उसका उपयोग करके उससे आपके द्वारा लिखे गए शब्द को बदल देता है। यदि शब्द गलत है, तो कुछ और सुझाव देखने के लिए शब्द पर टैप करें और दबाकर रखें।

यदि आप नहीं चाहते हैं कि कीबोर्ड लिखने के दौरान शब्दों का सुझाव दे तो पाठ सुधार बंद कर दें। सेटिंग्स > सिस्टम > कीबोर्ड > ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड पर टैप करें। आप जिस कीबोर्ड का सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, उसे चुनें। लेख सुधार टैप करें और उन पाठ सुधार विधियों को बंद कर दें जिनका उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं।

किसी शब्द को सही करें

यदि आप देखते हैं कि आपने किसी शब्द की वर्तनी गलत लिखी हुई है, तो उस पर टैप करके शब्द को ठीक करने के सुझाव देखें।

वर्तनी परीक्षक बंद करें

सेटिंग > सिस्टम > कीबोर्ड > वर्तनी परीक्षक पर टैप करें और वर्तनी परीक्षक का उपयोग करें को बंद करें।

बैटरी लाइफ़

बैटरी लाइफ़ बढ़ाएं

पावर की बचत करने के लिए:

1. बैटरी को हमेशा पूरी तरह चार्ज करें।
2. अनावश्यक ध्वनियों को म्यूट कर दें, जैसे कि संपर्क करने पर निकलने वाली ध्वनियाँ। सेटिंग > ध्वनि और कंपन पर टैप करें और वे ध्वनियाँ चुनें, जिन्हें आप रखना चाहते हैं।
3. लाउडस्पीकर की जगह वायर्ड हेडफोन का उपयोग करें।
4. फ़ोन स्क्रीन को थोड़े समय के बाद बंद होने के लिए सेट करें। सेटिंग > प्रदर्शन > स्क्रीन टाइमआउट पर टैप करें और समय चुनें।
5. सेटिंग > प्रदर्शन > चमक स्तर पर टैप करें। चमक समायोजित करने के लिए चमक स्तर के सलाइडर को खींचें। सुनिश्चित करें कि अनुकूलनीय रोशनी बंद है।
6. ऐप्लिकेशन को पृष्ठभूमि में चलने से रोकें।
7. स्थान सेवाओं का सोच-समझकर उपयोग करें: जब आपको स्थान सेवाओं की ज़रूरत न हो, तो उन्हें बंद कर दें। सेटिंग > स्थान पर टैप करें और स्थान का उपयोग करें स्विच को बंद करें।
8. नेटवर्क कनेक्शन का सोच-समझकर उपयोग करें: ब्लूटूथ तभी चालू करें, जब उसकी ज़रूरत हो। इंटरनेट

से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन के बजाय वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करें। अपने फ़ोन को उपलब्ध वायरलेस नेटवर्क सकैन करने से रोके। सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > इंटरनेट पर टैप करें और वाई-फ़ाई को बंद करें। यदि आप संगीत सुन रहे हैं या फिर अपने फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं और कॉल करना या कॉल प्राप्त

करना नहीं चाहते, तो हवाई जहाज मोड चालू कर दें। सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट पर टैप करें और हवाई जहाज मोड को चालू करें। हवाई जहाज मोड मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन बंद कर देता है और आपके डिवाइस की वायरलेस सुविधाओं को बंद कर देता है।

वर्चुअल RAM की मदद से अपने फ़ोन की मेमोरी बढ़ाएँ

मेमोरी एक्सटेंशन पर स्विच करें

अगर आपका फ़ोन वर्चुअल RAM फ़ीचर सपोर्ट करता है, तो आपको बैकग्राउंड में खोलने के लिए ज़्यादा ऐप मिल सकती हैं और आप दोनों के बीच बहुत आराम से स्विच कर सकते हैं। स्विच करने के फ़ीचर को चालू करने के लिए, सेटिंग > मेमोरी पर टैप करें और मेमोरी एक्सटेंशन पर स्विच करें। अगर पूछा जाए, तो जो मेमोरी साइज़ आपको चाहिए उसपर टैप करें।

मेमोरी एक्सटेंशन (वर्चुअल RAM) का उपयोग करने के लिए काफ़ी स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। स्टोरेज की सुरक्षा के लिए, उपयोग सीमा के 90% तक पहुंचने के बाद मेमोरी एक्सटेंशन स्वचालित रूप से और स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है। ऐसा इसके 4 साल के भारी उपयोग के बाद हो सकता है।

मेमोरी साफ़ करें

पृष्ठभूमि में चल रहे अनावश्यक ऐप्स से अपने फ़ोन की मेमोरी साफ़ करने के लिए, सेटिंग्स > मेमोरी पर टैप करें, उन ऐप्स का चयन करें जिन्हें आप बंद करना चाहते हैं, और बूस्ट पर टैप करें। अगर ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आप हमेशा बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं और उन्हें क्लीन-अप से बाहर करना चाहते हैं, तो: सेटिंग > मेमोरी > छोड़ी गई ऐप्स पर टैप करें और उन ऐप्स पर स्विच करें जिन्हें आप खुले रखना चाहते हैं।

एक्सेस योग्यता

स्कीन पर मौजूद टेक्स्ट और आइटम को बड़ा करें

1. सेटिंग > एक्सेस योग्यता > प्रदर्शन आकार और टेक्स्ट पर टैप करें।
2. फ़ॉन्ट का आकार स्लाइडर को तब तक टैप करें, जब तक कि पाठ का आकार आपकी पसंद के अनुसार न हो जाए।
3. प्रदर्शन आकार स्लाइडर को तब तक टैप करें, जब तक कि उसका आकार आपकी पसंद के अनुसार न हो जाए।

5 अपने मितोरं और परिवार के साथ कनेक्ट करें

कॉल

एक कॉल करें

1. 📞 पर टैप करें.
2. ☎️ पर टैप करें और नंबर लिखें, या 📞 पर टैप करें और वह संपर्क चुनें जिसे आप कॉल करना चाहते हैं.
3. 📞 पर टैप करें.

किसी कॉल का उत्तर दें

स्क्रीन अनलॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो **उत्तर दें** पर टैप करें. स्क्रीन लॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो उत्तर देने के लिए ऊपर स्वाइप करें.

कॉल को अस्वीकार करें

स्क्रीन अनलॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो **अस्वीकार करें** पर टैप करें. स्क्रीन लॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो कॉल अस्वीकार करने के लिए नीचे स्वाइप करें.

संपर्क

कोई संपर्क जोड़ना

1. **संपर्क** > + पर टैप करें.
2. जानकारी भरें.
3. **सहेजें** पर टैप करें.

कॉल इतिहास से कोई संपर्क सहेजें

1. अपना कॉल इतिहास देखने के लिए 📞 > 🕒 पर टैप करें.
2. उस नंबर पर टैप करें, जिसे आप सहेजना चाहते हैं.
3. **संपर्क जोड़ें** पर टैप करें. यदि यह नया संपर्क है, तो संपर्क जानकारी में टाइप करें और **सहेजें** पर टैप करें. यदि यह संपर्क आपकी संपर्क सूची में पहले से है, तो **मौजूदा में जोड़ें** पर टैप करें, संपर्क का चयन करें और **सहेजें** पर टैप करें.

संदेश भेजे

एक संदेश भेजे

1. **संदेश** पर टैप करें।
2. **चैट प्रारंभ करें** पर टैप करें।
3. कोई प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, प्राप्तकर्ता बॉक्स में उनका नंबर टाइप करें और ✓ पर टैप करें। कोई संपर्क जोड़ने के लिए, उनके नाम टाइप करना शुरू करें और संपर्क पर टैप करें।
4. अधिक प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, **+** पर टैप करें। सभी प्राप्तकर्ताओं को चुनने के बाद, **अगला** पर टैप करें, समूह को एक नाम दें, और **हो गया** पर टैप करें।
5. लेख संदेश बॉक्स में अपना संदेश लिखें।
6. **➤** पर टैप करें।

मेल

आप चलते-फिरते अपने फ़ोन से मेल भेज सकते हैं।

एक मेल खाता जोड़े

पहली बार Gmail ऐप का उपयोग करने पर, आपसे अपना ईमेल खाता सेट अप करने को कहा जाता है।

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. आप अपने Google खाते से कनेक्ट पता चुन सकते हैं या फिर **एक ईमेल पता जोड़े** पर टैप कर सकते हैं।
3. सभी खाते जोड़ने के बाद, **मुझे GMAIL पर ले जाएं** पर टैप करें।

मेल भेजे

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. **✍** पर टैप करें।
3. **प्रति** बॉक्स में, एक पता टाइप करें या **:** >
4. **संपर्क से जोड़े** पर टैप करें।
5. संदेश का विषय और फिर मेल टाइप करें।
6. **➤** पर टैप करें।

6 कैमरा

कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें

फ़ोटो लें

स्पष्ट और जीवंत फ़ोटो शूट करें – अपने फ़ोटो एल्बम में यादगार पलों को कैप्चर करें.

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. लक्ष्य बांधें और फोकस करें.
3. **○** पर टैप करें.

! फ्लैश का इस्तेमाल करते समय सुरक्षित दूरी बनाकर रखें. लोगों या जानवरों के नजदीक फ्लैश का उपयोग न करें। फोटो लेते समय फ्लैश को ढके नहीं।

सेल्फी लें

1. फ्रंट कैमरे पर स्विच करने के लिए **कैमरा** > **📷** पर टैप करें.
2. **○** पर टैप करें.

वीडियो रिकॉर्ड करें

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में बदलने के लिए, **वीडियो** पर टैप करें.
3. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए **📷** पर टैप करें.
4. रिकॉर्डिंग रोकने के लिए **⏏** पर टैप करें.
5. कैमरा मोड पर वापस जाने के लिए, **फ़ोटो** पर टैप करें.

आपके फ़ोटो और वीडियो

अपने फ़ोन पर फ़ोटो और वीडियो देखें

फ़ोटो पर टैप करें.

अपने फ़ोटो और वीडियो साझा करें

1. **फ़ोटो** पर टैप करें, उस फोटो पर टैप करें, जिसे आप साझा करना चाहते हैं और **📧** पर टैप करें.
2. यह चुनें कि आप किस तरह फ़ोटो या वीडियो साझा करना चाहते हैं.

अपने कंप्यूटर पर अपने फ़ोटो और वीडियो कॉपी करें

अपने फ़ोन को एक संगत USB केबल के ज़रिये अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें. अपने फ़ोटो और वीडियो कंप्यूटर पर कॉपी करने या स्थानांतरित करने के लिए अपने कंप्यूटर के फ़ाइल मैनेजर का उपयोग करें.

7 इंटरनेट और कनेक्शन

वाई-फ़ाई सक्रिय करें

वाई-फ़ाई चालू करें

1. सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > इंटरनेट पर टैप करें.
2. वाई-फ़ाई चालू करें.
3. आप जिस नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं उसे चुनें.

जब स्क््रीन के ऊपर ▼ दिखाई दे, तो समझ लें कि आपका वाई-फ़ाई कनेक्शन सक्रिय है. यदि वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन दोनों उपलब्ध हों, तो आपका फ़ोन वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करता है.

महत्वपूर्ण: अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें. एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है.

वेब ब्राउज़ करें

वेब खोजें

1. Chrome पर टैप करें.
2. खोज फ़ील्ड में कोई खोज शब्द या वेब पता लिखें.
3. → पर टैप करें या प्रस्तावित मिलानों से चुनें.



सुझाव: यदि आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता आपसे डेटा स्थानांतरण के लिए कोई निश्चित शुल्क नहीं लेता है, तो डेटा लागत बचाने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वाई-फ़ाई नेटवर्क का उपयोग करें।

अपने फ़ोन का उपयोग करके अपने कंप्यूटर को वेब से कनेक्ट करें

अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके अपने लैपटॉप या अन्य डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस करें.

1. सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > हॉटस्पॉट और टेदरिंग पर टैप करें.
2. वाई-फ़ाई पर अपना मोबाइल डेटा कनेक्शन साझा करने के लिए वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट को, USB कनेक्शन का उपयोग करने के लिए USB टेदरिंग को. बलट्थ का उपयोग करने के लिए ब्लूटूथ टेदरिंग को या USB ईथरनेट केबल का उपयोग करने के लिए ईथरनेट टेदरिंग को चालू करें.

दूसरा डिवाइस आपके डेटा प्लान के डेटा का उपयोग करता है, जिसके लिए आपसे डेटा ट्रैफ़िक शुल्क लिया जा सकता है. उपलब्ध और लागतों की जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

BLUETOOTH®

किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करें

1. सेटिंग > कनेक्टेड डिवाइस > कनेक्शन प्राथमिकताएँ > ब्लूटूथ पर टैप करें.
2. Bluetooth का उपयोग करें चालू करें.
3. सुनिश्चित करें कि अन्य डिवाइस भी चालू है. आपको दूसरे डिवाइस से युग्मन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है. विवरण के लिए, दूसरे डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.
4. नया डिवाइस युग्मित करें पर टैप करें और खोजे गए ब्लूटूथ डिवाइस की सूची में से उस डिवाइस पर टैप करें, जिसे आप युग्मित करना चाहते हैं.
5. आपको एक पासकोड टाइप करना पड़ सकता है. विवरण के लिए, दूसरे डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.

चूंकि ब्लूटूथ वायरलेस पौरद्व्योगिकी वाले डिवाइस संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, इसलिए उनका प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि रेखा में होना ज़रूरी नहीं है. हालांकि, ब्लूटूथ डिवाइस एक दूसरे से 10 मीटर (33 फुट) की दूरी पर होने चाहिए. दीवार जैसी रुकावटों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा पैदा किए जाने वाले व्यवधान के कारण कनेक्शन प्रभावित हो सकता है.


Bluetooth चालू होने पर युग्मित डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं. अन्य डिवाइस आपके फ़ोन का पता केवल तभी लगा सकेंगे, जब ब्लूटूथ सेटिंग दृश्य खुला हो.

अज्ञात डिवाइस के साथ न तो युग्मित करें न उनके कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करें. इससे आपके फ़ोन को हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.

ब्लूटूथ का उपयोग करके अपनी सामग्री साझा करें

अगर आप अपनी फ़ोटो या अन्य सामग्री को किसी मित्र से साझा करना चाहते हैं, तो ब्लूटूथ का उपयोग करके उन्हें अपने मित्रों को भेजें.

आप एक बार में एक से अधिक ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, ब्लूटूथ हेडसेट का उपयोग करते समय, आप अभी भी अन्य फ़ोन को सामग्री भेज सकते हैं.


1. सेटिंग > कनेक्टेड डिवाइस > कनेक्शन प्राथमिकताएँ > ब्लूटूथ पर टैप करें.
2. सुनिश्चित करें कि दोनों फ़ोन पर ब्लूटूथ चालू है और फ़ोन एक दूसरे के लिए दृश्यमान है.
3. आप जिस सामग्री को भेजना चाहते हैं उस पर जाएं और  > ब्लूटूथ पर टैप करें.
4. प्राप्त ब्लूटूथ डिवाइस की सूची में अपने मित्र के फ़ोन पर टैप करें.
5. यदि दूसरे फ़ोन के लिए पासकोड की ज़रूरत है, तो पासकोड टाइप करें या स्वीकार करें और टैप करें. युग्मित करें.

पासकोड का उपयोग सिर्फ़ तभी किया जाता है, जब आप पहली बार किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं.

युग्मन निकालें

यदि अब आपके पास वह डिवाइस नहीं है, जिसके साथ आपने अपना फ़ोन युग्मित किया था, तो आप वह युग्मन निकाल सकते हैं.

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

1. **सेटिंग** > **नेक्टेड डिवाइस** > **सहेजे गए डिवाइस** पर टैप करें.
2. डिवाइस नाम के बगल में स्थित  पर टैप करें.
3. **भूल जाएं** पर टैप करें.

NFC

यदि आपका फ़ोन नियर फ़ील्ड कम्यूनिकेशन (NFC) का समर्थन करता है, तो आप उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक्सेसरीज़ से टैप कर सकते हैं और किसी को कॉल करने या कोई वेबसाइट खोलने के लिए टैग पर टैप करें. NFC कार्यक्षमता का उपयोग कुछ विशिष्ट सेवाओं और पौर्योगिकियों, जैसे अपने डिवाइस के साथ 'भुगतान करने के लिए टैप करें' के साथ किया जा सकता है. हो सकता है कि ये सेवाएँ आपके क्षेत्र में उपलब्ध न हों. इन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

NFC का स्विच चालू करें

1. **सेटिंग** > **कनेक्टेड डिवाइस** > **कनेक्शन प्राथमिकताएँ** > **NFC** पर टैप करें.
2. **NFC का उपयोग करें** चालू करें.

NFC का उपयोग करने से पहले, सुनिश्चित करें कि स्क्रीन और कुंजियां अनलॉक हैं.

NFC का उपयोग करें

NFC क्षेत्र आपके फ़ोन के पीछे होता है.

अपने फ़ोन को किसी अन्य फ़ोन या एक्सेसरी से कनेक्ट करने या NFC टैग पढ़ने के लिए, बस अपने फ़ोन के NFC क्षेत्र से अन्य डिवाइस या टैग को टैप करें.



नोट: भुगतान और टिकटिंग ऐप्स और सेवाएँ तृतीय पक्षों द्वारा प्रदान की जाती हैं. HMD Global समर्थन, कार्यक्षमता, ट्रैजिक्शन या मौद्रिक क्षति सहित इस प्रकार के किन्हीं भी ऐप्स या सेवाओं के लिए न तो कोई वारंटी देता है और न ही उनकी कोई ज़िम्मेदारी लेता है. आपको अपने डिवाइस की मरम्मत के बाद हो सकता है कि भुगतान या टिकटिंग ऐप के साथ-साथ उन कार्ड को दोबारा इंस्टॉल करना और सक्रिय करना पड़े, जिन्हें आपने जोड़ा है.

कनेक्ट की गई एक्सेसरी डिस्कनेक्ट करें

यदि अब आपको एक्सेसरी से कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक्सेसरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं.

एक्सेसरी के NFC क्षेत्र पर दोबारा टैप करें.

अधिक जानकारी के लिए, एक्सेसरी की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.

VPN


अपनी कंपनी के संसाधन, जैसे कि इंटरनेट या कॉर्पोरेट मेल एक्सेस करने के लिए आपको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) कनेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, या फिर आप व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किसी VPN सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

अपने VPN कॉन्फिगरेशन के विवरण हेतु अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक से संपर्क करें या अतिरिक्त जानकारी के लिए अपनी VPN सेवा की वेबसाइट पर नज़र डालें।


एक सुरक्षित VPN कनेक्शन का उपयोग करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **VPN** पर टैप करें.
2. एक VPN प्रोफ़ाइल जोड़ने के लिए, **+** पर टैप करें.
3. अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक या VPN सेवा के निर्देशानुसार अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी टाइप करें.

VPN प्रोफ़ाइल संपादित करें

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थित  पर टैप करें.
2. जानकारी को आवश्यकतानुसार बदलें.

VPN प्रोफ़ाइल हटाएं

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थित  पर टैप करें.
2. **भूल जाएं** पर टैप करें.

8 अपना दिन व्यवस्थित करें

दिनांक और समय

दिनांक और समय सेट करें

सेटिंग > सिस्टम > दिनांक और समय पर टैप करें.

समय और दिनांक स्वचालित रूप से अपडेट करें

आप अपने फ़ोन को समय, दिनांक और समय क्षेत्र को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए सेट कर सकते हैं. स्वचालित अपडेट एक नेटवर्क सेवा है और आपके क्षेत्र या नेटवर्क सेवा प्रदाता पर निर्भर करते हुए हो सकता है आपके लिए उपलब्ध न हो.

1. सेटिंग > सिस्टम > दिनांक और समय पर टैप करें.
2. समय को स्वचालित रूप से सेट करें चालू करें.
3. स्वचालित रूप से सेट करें चालू करें.

घड़ी को 24-घंटे के पाररूप में बदलें

सेटिंग > सिस्टम > दिनांक और समय पर टैप करें और 24-घंटे के पाररूप का उपयोग करें को चालू पर स्विच करें.

अलार्म घड़ी

अलार्म सेट करें

1. घड़ी > अलार्म पर टैप करें.
2. अलार्म जोड़ने के लिए, + पर टैप करें.
3. घंटा और मिनट चुनकर ठीक पर टैप करें.
4. अलार्म को कुछ खास दिनांकों पर दोहराने हेतु सेट करने के लिए संबंधित सप्ताह के दिनों पर टैप करें.

अलार्म बंद करें

अलार्म बजने पर आप उसे दाईं ओर स्वाइप करें.

कैलेंडर

कैलेंडर का प्रकार चुनें

कैलेंडर > ≡ टैप करें और फिर चुनें कि आप किस प्रकार का कैलेंडर देखना चाहते हैं।

यदि आपने अपने Google खाते जैसे किसी खाते में साइन इन किया है, तो आपका कैलेंडर फ़ोन पर दिखाया जाता है।

एक ईवेंट जोड़ें

1. कैलेंडर में, + पर टैप करें और प्रविष्टि प्रकार चुनें। कितनी बार दोहराया जाएगा।
2. इच्छित विवरण टाइप करें और समय सेट करें।
3. ईवेंट को कुछ खास दिनों पर दोहराने के लिए, नहीं दोहराया जाता पर टैप करें और यह चुनें कि ईवेंट
4. रिमाइंडर सेट करने के लिए, नोटिफ़िकेशन जोड़ें पर टैप करें और समय सेट करें।
5. सहेजें पर टैप करें।



सुझाव: कोई ईवेंट संपादित करने के लिए, ईवेंट और ✎ पर टैप करके विवरण संपादित करें।

कोई अपॉइंटमेंट हटाएं


1. ईवेंट पर टैप करें।
2. ⋮ > हटाएं पर टैप करें।

9 मानचित्र

स्थान ढूँढें और दिशानिर्देश प्राप्त करें

कोई स्थान ढूँढें

Google मानचित्र की मदद से विशिष्ट स्थान और व्यवसाय ढूँढें.



1. मानचित्र पर टैप करें.
2. खोज बार में खोज शब्द, जैसे कि सड़क का पता या स्थान का नाम लिखें.
3. लिखते समय प्रस्तावित मिलानों की सूची से एक आइटम चुनें या खोजने के लिए  पर टैप करें.


स्थान मानचित्र पर दिखाया जाता है. यदि खोज का कोई परिणाम नहीं मिलता, तो सुनिश्चित करने की आपके खोज शब्दों की वर्तनी सही है.

अपना मौजूदा स्थान देखें

मानचित्र >  पर टैप करें.

किसी स्थान तक जाने के दिशानिर्देश प्राप्त करें

1. मानचित्र पर टैप करें और खोज पट्टी में अपना गंतव्य दर्ज करें.
2. दिशाएं टैप करें. हाइलाइट किए गए आइकन परिवहन का माध्यम दर्शाता है, उदाहरण के लिए . माध्यम बदलने के लिए, खोज पट्टी के अंतर्गत नया माध्यम चुनें.
3. यदि आप अपने मौजूदा स्थान को प्रारंभ बिंदु नहीं बनाना चाहते, तो अपने स्थान पर टैप करके एक नए प्रारंभ बिंदु की खोज करें.
4. नेविगेशन प्रारंभ करने के लिए  पर टैप करें.

मार्ग मानचित्र पर दिखाया जाता है और साथ ही इसका अनुमान भी दिखाया जाता है कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा. विस्तृत दिशानिर्देश देखने के लिए  पर टैप करें.

10 ऐप, अद्यतन और बैकअप

GOOGLE PLAY से ऐप प्राप्त करें

कोई भुगतान पद्धति जोड़ें

Google Play सेवाओं का उपयोग करने के लिए, आपको अपने फ़ोन पर एक Google खाता जोड़ना होगा। शुल्क Google Play में उपलब्ध कुछ सामग्री पर लगाए जा सकते हैं। भुगतान पद्धति जोड़ने के लिए, Play स्टोर, खोज फ़ील्ड में अपना Google लोगो टैप करें, और फिर भुगतान और सब्सक्रिप्शन पर टैप करें। Google Play से सामग्री खरीदते समय भुगतान पद्धति के स्वामी की अनुमति लेना न भूलें।

ऐप्स डाउनलोड करें

1. Play स्टोर पर टैप करें।
2. ऐप्स ढूँढने के लिए खोज बार पर टैप करें या अपनी अनुशंसाओं से ऐप्स चुनें।
3. ऐप वर्णन में, ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करें पर क्लिक करें।

अपने ऐप देखने के लिए, होम स्क्रीन पर जाएँ और स्क्रीन के निचले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें।

अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें

उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करें

अपडेट उपलब्ध है या नहीं यह देखने के लिए सेटिंग > सिस्टम > सिस्टम अपडेट > अपडेट की जांच करें पर टैप करें।

जब आपका फ़ोन आपको किसी अपडेट के उपलब्ध होने की सूचना दे, तो अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें। यदि आपकी फ़ोन मेमोरी कम हो गई है, तो आपको अपने ऐप्स, फ़ोटो या अन्य सामग्री मेमोरी कार्ड पर ले जानी होगी।

अपडेट शुरू करने से पहले, चार्जर कनेक्ट कर लें या सुनिश्चित कर लें कि डिवाइस की बैटरी में पर्याप्त पावर है और फिर वाई-फ़ाई से कनेक्ट करें, क्योंकि अपडेट पैकेज आपका बहुत सारा मोबाइल डेटा खर्च कर सकते हैं।

अपने डेटा का बैकअप लें

अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने फ़ोन में बैकअप सुविधा का उपयोग करें। आपका डिवाइस डेटा (जैसे वाई-फ़ाई पासवर्ड और कॉल इतिहास) और ऐप डेटा (जैसे कि सेटिंग और ऐप्स द्वारा संग्रहित फ़ाइलें) का बैकअप दूरस्थ रूप से लिया जाएगा।

स्वचालित बैकअप चालू करें

सेटिंग > सिस्टम > बैकअप पर टैप करें और बैकअप का स्विच चालू कर दें।

मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से निजी सामग्री हटाएं

अपना फ़ोन रीसेट करें

1. सेटिंग > सिस्टम > रीसेट के विकल्प > सभी डेटा मिटाएँ (फ़ैक्टरी रीसेट) पर टैप करें.
2. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपकी सुरक्षा के लिए

ये आसान दिशानिर्देश पढ़ें. इनका पालन न करना खतरनाक या स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ हो सकता है. अधिक जानकारी के लिए पूरा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें.

मना की गई जगहों पर डिवाइस बंद करें



जब मोबाइल डिवाइस के उपयोग की अनुमति नहीं हो या जब यह हस्तक्षेप या खतरे का कारण बन सकता हो, उदाहरण के लिए, विमान में, अस्पतालों में या चिकित्सीय उपकरण, ईंधन, रासायनिक पदार्थों, या विस्फोट वाले क्षेत्रों में डिवाइस को बंद कर दें। मना की गई जगहों के सभी निर्देशों का पालन करें.

सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें



सभी स्थानीय कानूनों का पालन करें. कृपया वाहन चलाते समय उससे जुड़े काम करने के लिए हमेशा अपने हाथ खाली रखें. वाहन चलाते समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान सड़क से जुड़ी सुरक्षा पर होना चाहिए.

व्यवधान



उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

सभी वायरलेस डिवाइस व्यवधान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जिससे परफॉर्मेस में असर पड़ सकता है।

अधिकृत सेवा



केवल अधिकृत कर्मचारी ही इस उत्पाद को स्थापित या मरम्मत कर सकते हैं, जब तक कि स्वयं-मरम्मत सहायता उपलब्ध न हो। अधिक जानकारी www.hmd.com/self-repair पर देखें।

बैटरी, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़



इस डिवाइस के साथ केवल HMD Global Oy द्वारा स्वीकृत बैटरियों, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़ का उपयोग करें। अनुपयुक्त डिवाइस कनेक्ट न करें।

अपने डिवाइस को सूखा रखें



यदि आपका डिवाइस जल-प्रतिरोधी है, तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए डिवाइस की तकनीकी विनिर्देशनों में इसकी IP रेटिंग देखें।

कांच के पुरजे



इस डिवाइस और/या इसकी स्कीरन कांच से निर्मित है. यदि डिवाइस किसी कठोर सतह पर गिरता है या उसे तेज़ आघात लगता है, तो यह कांच टूट सकता है. जब तक कांच बदला न जाए तब तक डिवाइस का उपयोग बंद रखें।

अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करें



सुनने की क्षमता को हो सकने वाली क्षति रोकने के लिए, लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम स्तर पर न सुनें. जब लाउड स्पीकर उपयोग में हो, तब अपने डिवाइस को कान के पास इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

नेटवर्क सेवाएं और लागते

कुछ सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करने, या मुफ्त सामग्री सहित सामग्री डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा का स्थानांतरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा लागत बढ़ सकती है। आपको कुछ सुविधाओं की सदस्यता लेने की भी आवश्यकता हो सकती है।

- ❗ **महत्वपूर्ण:** हो सकता है आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता या यात्रा के दौरान आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा सेवा प्रदाता 5G का समर्थन न करता हो. जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से पूछें. यदि 5G आपके नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा समर्थित नहीं है, तो आपको उच्चतम कनेक्शन गति को 5G से 4G में बदलने का सझाव दिया जाता है. ऐसा करने के लिए होम स्कीरन पर **सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > SIM** पर टैप करें और **पसंदीदा नेटवर्क प्रकार** को **4G** पर बदलें.
अधिक जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.
- ❗ **नोट:** कुछ देशों में वाई-फ़ाई का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है. उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15-5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं और यूएसए और कनाडा में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15-5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें.


आपातकालीन कॉल



! **महत्वपूर्ण:** सभी परिस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है। चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फ़ोन के भरोसे न रहें।

कॉल करने से पहले:

- फ़ोन चालू करें।
- यदि फ़ोन स्क््रीन और कुंजियाँ लॉक हैं, तो उन्हें अनलॉक करें।
- पर्याप्त सिग्नल शक्ति वाले स्थान पर चले जाएं।

किसी भी स्क््रीन पर आपातकालीन कॉल करने के लिए, पावर कुंजी को 3 बार दबाएँ।

होम स्क््रीन में,  पर टैप करें।

1.  पर टैप करें और अपने मौजूदा स्थान का आधिकारिक आपातकालीन नंबर टाइप करें। आपातकालीन कॉल नंबर स्थान-दर-स्थान अलग-अलग होते हैं।
2.  पर टैप करें।
3. ज़रूरी और जितनी हो सके सटीक जानकारी दें। कॉल समाप्त करने की अनुमति मिलने तक कॉल समाप्त न करें।

आपको निम्न कार्य भी करना पड़ सकता है:

- फ़ोन में सिम कार्ड डालें। यदि आपके पास SIM कार्ड नहीं है, तो लॉक स्क््रीन में **आपातकाल** पर टैप करें।
- यदि आपका फ़ोन पिन कोड माँगता है, तो **आपातकाल** पर टैप करें।
- अपने फ़ोन में कॉल बारिश, फ़िक्स्ड डायलिंग या क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप जैसे कॉल प्रतिबंध बंद कर दें।
- यदि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध न हो, तो आप इंटरनेट कॉल करने का भी प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इंटरनेट उपलब्ध हो।

अपने डिवाइस का ध्यान रखें

अपने डिवाइस, बैटरी, चार्जर और एक्सेसरीज़ का ध्यान से उपयोग करें। नीचे दिए गए सुझावों की मदद से आप अपने डिवाइस को कार्यशील बनाए रख सकते हैं।

- डिवाइस को सूखा रखें। बारिश, आर्द्रता और सभी प्रकार के तरल पदार्थ या नमी में ऐसे खनिज हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ख़राब कर सकते हैं।
- डिवाइस को धूल भरे या गंदे क्षेत्रों में उपयोग या भंडारण न करें।
- डिवाइस को उच्च तापमान पर न रखें। उंचे तापमान के कारण डिवाइस या बैटरी क्षतिग्रस्त हो सकती है।
- डिवाइस को ठंडे तापमान में न रखें। जब डिवाइस अपने सामान्य तापमान तक गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर नमी पैदा हो कर उसे ख़राब कर सकती है।

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

- उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए निर्देशों के अलावा डिवाइस को न खोलें।
- अनधिकृत संशोधन से उपकरण को क्षति पहुंच सकती है तथा रेडियो उपकरणों को नियंत्रित करने वाले विनियमों का उल्लंघन हो सकता है।
- डिवाइस या बैटरी को गिराएं नहीं, खटखटाएं नहीं, या हिलाएं नहीं। लापरवाही से उपयोग करने पर वह टूट सकता है।
- डिवाइस की सतह को साफ करने के लिए केवल मुलायम, साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करें।
- डिवाइस पर पेट न करें। पेट उचित संचालन में रुकावट पैदा कर सकता है।
- डिवाइस को चुम्बक या चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखें।
- अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, उसे कम से कम दो अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत करें, जैसे कि आपका डिवाइस, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर, या महत्वपूर्ण जानकारी लिख लें।

विस्तारित संचालन के दौरान, डिवाइस छूने पर गर्म लग सकता है। अधिकांश मामलों में, यह एक आम बात होती है। खुद को बहुत गर्म होने से बचाने के लिए, डिवाइस अपनी गति स्वचालित रूप से कम कर सकता है, वीडियो कॉल के दौरान प्रदर्शन को कम कर सकता है, ऐप्स बंद कर सकता है, चार्जिंग बंद कर सकता है और ज़रूरी होने पर खुद को बंद कर सकता है। यदि डिवाइस सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसे निकटतम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएँ।

रीसाइकल करना



इस्तेमाल किए जा चुके विद्युतीय उत्पादों, बैटरियों और पैकेजिंग के मटेरियल को हमेशा संबंधित संकलन केंद्र पर वापस कर दें। इससे अनियंत्रित कूड़े का निपटारा करने और मटेरियल को रीसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बहुत सारा कीमती मटेरियल रहता है, जैसे कि धातु (तांबा, अल्युमीनियम, स्टील और मैग्नीशियम) और कीमती धातु (सोना, चांदी और पैलेडियम)। डिवाइस के सारे मटेरियल को मटेरियल या ऊर्जा के तौर पर रिकवर किया जा सकता है।

ऐसे डिब्बे वाला प्रतीक जिसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है

ऐसे डिब्बे वाला प्रतीक जिसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है



आपके उत्पाद, बैटरी, साहित्य या पैकेजिंग पर बना व्हीली-बिन पर कॉर्स के निशान वाला प्रतीक आपको याद दिलाता है कि सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों को उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर एक पृथक संग्रहण केंद्र पर ले जाना चाहिए। पहले डिवाइस से निजी डेटा निकालना न भूलें। इन उत्पादों को नगर निगम के नहीं छांटे गए कूड़े में न फेंकें: उन्हें रीसाइकल के लिए ले जाएं। अपने निकटतम रीसाइकलिंग बिंदु की जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अपशिष्ट प्राधिकरण से संपर्क करें, या HMD के टेक-बैक कार्यक्रम और अपने देश में इसकी उपलब्धता के बारे में पढ़ें www.hmd.com/support/topics/recycle।

बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी

बैटरी और चार्जर की जानकारी

आपके फ़ोन की बैटरी निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती इसका पता लगाने के लिए मुद्रित मार्गदर्शिका देखें।

निकाली जा सकने वाली बैटरी वाले डिवाइस अपने डिवाइस का केवल ओरिजिनल रीचार्जेबल बैटरी के साथ उपयोग करें। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से कम हो जाए, तो बैटरी बदल दें।

बिना निकाली जा सकने वाली बैटरी वाले उपकरण बैटरी निकालने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास में आप डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से काफी कम हो जाए, तो बैटरी बदलने के लिए अपने डिवाइस को किसी निकटतम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएँ।

अपने डिवाइस को संगत चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें। चार्जर के प्लग का प्रकार भिन्न हो सकता है। चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

बैटरी और चार्जर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपके डिवाइस की चार्जिंग पूरी हो जाने पर, डिवाइस और इलेक्ट्रिकल आउटलेट से चार्जर का प्लग निकाल दें। कृपया ध्यान दें कि 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग में न होने पर भी ऐसे ही छोड़ने से कुछ समय बाद पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी भी डिस्चार्ज होती जाएगी।

तापमान अत्यधिक कम या ज्यादा होने से बैटरी की क्षमता और लाइफटाइम कम हो जाती है। अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए, बैटरी को हमेशा 15°C और 25°C (59°F और 77°F) के तापमान में रखें। हो सकता है कि गर्म या ठंडी बैटरी वाला डिवाइस कुछ देर तक काम न कर पाए। ध्यान दें कि ठंडे तापमान में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और मिनटों में फ़ोन को बंद करने की पर्याप्त शक्ति खो सकती है। जब आप ठंडे तापमान में बाहर होते हैं, तब अपने फ़ोन को गर्म रखें।

स्थानीय अधिनियमों का पालन करें। संभव होने पर रीसाइकल करें। घरेलू कूड़े-कचरे के साथ न फेंकें।

बैटरी को बहुत कम हवा के अत्यधिक निम्न दबाव में या अत्यधिक उच्च तापमान पर न रखें, उदाहरण के लिए आग में निपटान करना, क्योंकि इससे ज्वलनशील तरल या गैस का विस्फोट या रिसाव हो सकता है।

बैटरी को किसी भी प्रकार से खोलने, काटने, मोड़ने, छेद करने या दूसरी तरह से क्षति पहुंचाने का काम न करें। बैटरी लीक होने पर उसके तरल पदार्थ को त्वचा या आंखों के संपर्क में आने न दें। ऐसा होने पर, प्रभावित जगह को तुरंत पानी से धो डालें या डॉक्टर की मदद लें। बैटरी में संशोधन न करें, न ही उसमें कोई बाह्य वस्तु घुसेड़ने की कोशिश करें, या फिर उसे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में डुबोने या उद्घाटित करने का काम न करें। क्षति होने पर बैटरी फट सकती है।

बैटरी या चार्जर का उपयोग निहित उद्देश्यों के लिए ही करें। सही से उपयोग न करने अथवा स्वीकृति नहीं दी गई या अनुपयुक्त बैटरी या चार्जर का उपयोग करने से आग लगने, विस्फोट होने या अन्य खतरे का जोखिम उत्पन्न हो सकता

है और इससे कोई भी स्वीकृति या वारंटी अमान्य हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बैटरी या चार्जर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसका उपयोग जारी रखने से पहले उसे सेवा केंद्र में ले जाएं या फिर अपने फोन डीलर को दिखाएं। कभी भी क्षतिग्रस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें। केवल घर के अंदर ही चार्जर का उपयोग करें। बिजली कड़कने पर अपने डिवाइस को चार्ज न करें। जब चार्जर बिक्री पैक में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामिल) और एक USB पावर एडाप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डिवाइस को चार्ज करें। आप अपने डिवाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो। हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्ति का नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है।

कोई चार्जर या एक्सेसरी अनप्लग करने के लिए प्लग को पकड़ें और खींचें, तार को नहीं।

इसके अलावा, यदि आपके डिवाइस की बैटरी निकाली जा सकती है, तो उस पर नीचे दिए नियम लागू होंगे:

- किसी भी कवर या बैटरी को हटाने से पहले हमेशा डिवाइस को बंद कर दें और चार्जर को अनप्लग कर दें।
- धातु वाली वस्तुएं बैटरी की धातु वाली पट्टी के संपर्क में आने पर आकस्मिक रूप से शॉर्ट-सर्किट हो सकती है। इससे बैटरी या अन्य वस्तु को क्षति पहुंच सकती है।

छोटे बच्चे

आपका डिवाइस और इसके एक्सेसरीज़ खिलौने नहीं हैं। उनमें छोटे-छोटे पुर्जे हो सकते हैं। उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

निकेल

इस उपकरण की सतह निकल-मुक्त है।

चिकित्सा उपकरण

वायरलेस फोन जैसे रेडियो ट्रांसमिट करने वाले डिवाइस के संचालन से अपर्याप्त रूप से सुरक्षित चिकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली पर बाधा पहुंच सकती है। चिकित्सा उपकरण को बाह्य रेडियो एनर्जी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है या नहीं, यह तय करने के लिए चिकित्सक या उक्त उपकरण के निर्माता से सलाह-परामर्श लें।

प्रत्यारोपण किए गए चिकित्सा उपकरण

संभावित व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्यारोपित चिकित्सा डिवाइस (जैसे कि कार्डिएक पेसमेकर, इंसुलिन पंप और न्यूरोस्टिम्युलेटर) निर्माता वायरलेस डिवाइस और चिकित्सा डिवाइस के बीच कम-से-कम 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) की दूरी बनाए रखने का सुझाव देते हैं। ऐसे उपकरण वाले व्यक्ति को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

- वायरलेस डिवाइस को हमेशा मेडिकल डिवाइस से 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) से अधिक दूर रखें।
- वायरलेस डिवाइस को अपनी छाती की जेब में न रखें।
- वायरलेस डिवाइस को चिकित्सा उपकरण के विपरीत कान पर रखें।
- यदि आपको संदेह हो कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वायरलेस डिवाइस को बंद कर दें।
- प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

प्रत्यारोपण किए गए चिकित्सा उपकरण के साथ अपने वायरलेस डिवाइस के इस्तेमाल के संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

सुनने की क्षमता

- ❗ **चेतावनी:** जब आप हेडसेट का उपयोग करते हैं, तो बाहरी आवाजें सुनने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब हेडसेट आपकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता हो, तब उसका उपयोग न करें।

कुछ वायरलेस डिवाइस कुछ सुनने की क्षमता के सहायक उपकरणों को बाधा पहुंचा सकते हैं।

अपने डिवाइस की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें

आपका डिवाइस वायरस या अन्य हानिकारक सामग्री के संपर्क में आ सकता है। निम्नलिखित सावधानियां रखें:

- संदेश खोलते समय सावधान रहें। उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या वे आपके डिवाइस अथवा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- कनेक्टिविटी अनुरोध स्वीकार करते समय, इंटरनेट ब्राउज़ करते समय या सामग्री डाउनलोड करते समय सावधान रहें। गैर-भरोसेमंद स्रोतों से ब्लूटूथ कनेक्शन स्वीकार न करें।
- केवल उन स्रोतों से सेवाएँ और सॉफ्टवेयर स्थापित करें और उनका उपयोग करें जिन पर आपको भरोसा हो और जो पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हों।
- अपने डिवाइस और उससे जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। एक बार में केवल एक एंटीवायरस ऐप का उपयोग करें। ज़्यादा एंटीवायरस का उपयोग करने पर डिवाइस और/या कंप्यूटर का प्रदर्शन और संचालन प्रभावित हो सकता है।
- यदि आप पूर्वस्थापित बुकमार्क्स और तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों के लिंक तक पहुंचते हैं, तो उचित सावधानी बरतें। HMD Global ऐसी साइटों का न तो अनुमोदन करता है और न ही उनकी ज़िम्मेदारी लेता है।

वाहन

रेडियो सिग्नल से वाहनों में मौजूद सही से इंस्टॉल नहीं की गई या अपर्याप्त सुरक्षा वाली विद्युतीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने वाहन या उसके उपकरण के निर्माता से संपर्क करें। वाहन में केवल अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही डिवाइस इंस्टॉल किया जाना चाहिए। गलत तरीके से इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है। नियमित रूप से इस बात की जांच करते रहें कि आपके वाहन में डिवाइस उपकरण सही से लगाया गया और वह सही से काम कर रहा है कि नहीं। डिवाइस, उसके पुरजे या एक्सेसरीज़ जिस खंड में हैं उसी खंड में ज्वलनशील या विस्फोटक मटेरियल रखने या ढोने का काम न करें। एयरबैग वाली जगह पर अपना डिवाइस या एक्सेसरीज़ न रखें।

संभावित रूप से विस्फोटक जगहें

गैसोलिन पंप जैसी संभावित रूप से विस्फोटक जगहों पर अपना डिवाइस बंद करें. चिंगारियों से विस्फोट या आगजनी हो सकती है, जिससे चोट या मृत्यु हो सकती है. ईंधन, रासायनिक पदार्थों के प्लांट या विस्फोट वाली कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही जगहों पर दिए गए निषेधों पर ध्यान दें. संभावित रूप से विस्फोटक जगहों पर हो सकता है कि साफ संकेत न हों. सामान्य रूप से ये जगहें होती हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जाती है, बोट पर डेक से नीचे, रासायनिक पदार्थ के स्थानांतरण या फैसिलिटी पर और जहां हवा में रासायनिक पदार्थ या कण हों. तरल पदार्थ वाले पेट्रोलियम गैस (जैसे कि प्रोपेन या ब्यूटेन) का उपयोग करने वाले वाहनों के निर्माताओं से पूछताछ करें कि उनके आस-पास यह डिवाइस सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा सकता है कि नहीं.

प्रमाणन जानकारी

यह मोबाइल डिवाइस रेडियो तरंगों के संपर्क हेतु दिशानिर्देशों को पूरा करता है।

आपका मोबाइल डिवाइस रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर है. इसे स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन ICNIRP के अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों में सुझाए गए रेडियो तरंगों के एक्सपोजर (रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड) से जुड़ी सीमाएं पार न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इन दिशानिर्देशों में सुरक्षा के संबंध में आवश्यक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य उम्र और तबियत कैसी भी क्यों न हो, सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है. ये एक्सपोजर के दिशानिर्देश स्पेसिफिक अब्सॉर्प्शन रेट (SAR) पर आधारित होते हैं, जो कि उस समय सिर या शरीर में जमा होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) पावर की मात्रा बताने का तरीका है, जब डिवाइस ट्रांसमिट कर रहा होता है. मोबाइल डिवाइस के लिए ICNIRP SAR की सीमा 10 ग्राम टिशू पर औसत 2.0 W/kg होता है.

डिवाइस से जुड़े SAR के परीक्षण संचालन की मानक स्थितियों में किया जाता है, जब वह अपने सभी फ्रीक्वेंसी बैंड पर, प्रमाणित अधिकतम पावर स्तर पर ट्रांसमिट करता है.

यह डिवाइस सिर के सामने उपयोग किए जाने पर या शरीर से कम से कम 5/8 इंच (1.5 सेंटीमीटर) की दूरी पर रखे जाने पर RF एक्सपोजर से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करता है. शरीर पर टांग कर इस्तेमाल करने के लिए कोई कैरी केस, बेल्ट क्लिप या कोई दूसरी तरह का डिवाइस होल्डर उपयोग किए जाने पर, उसमें धातु नहीं होना चाहिए और शरीर से वह कम से कम ऊपर बताई गई दूरी पर होना चाहिए.

डेटा या संदेश भोजने के लिए बढ़िया नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ती है. इस प्रकार का कनेक्शन उपलब्ध न होने तक भेजने के काम में देरी हो सकती है. जब तक भेजने का काम पूरा न हो, तब तक अलग रखने की दूरी से जुड़े निर्देशों का पालन करें.

सामान्य उपयोग के दौरान SAR मान ऊपर बताए गए मानों से काफी हद तक नीचे होते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि सिस्टम की कार्यक्षमता कायम रखने और नेटवर्क पर व्यवधान कम करने के लिए, आपके मोबाइल डिवाइस की ऑपरेटिंग पावर कॉल के लिए पूरी पावर की जरूरत न होने पर अपने आप कम हो जाती है. पावर आउटपुट जितना कम होगा, SAR मान भी उतना ही कम होगा.

डिवाइस के मॉडल के अनुसार अलग-अलग संस्करण और एक से अधिक मान हो सकते हैं. समय के साथ पुरजों और डिज़ाइन में बदलाव हो सकते हैं और कुछ बदलावों से SAR के मानों पर असर पड़ सकता है.

अधिक जानकारी के लिए, www.sar-tick.com. इस बात पर ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस तब भी ट्रांसमिट कर रहे हो सकते हैं जब आपका कोई वॉइस कॉल नहीं कर रहे हों.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि मौजूदा वैज्ञानिक जानकारी इस बात का संकेत नहीं देती है कि मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की विशेष सतर्कता अपनाने की आवश्यकता पड़े. अगर आप एक्सपोजर कम करना चाहते/चाहती हैं, तो वे सुझाव देते हैं कि आप अपना उपयोग सीमित करें या फिर डिवाइस को अपने सिर या शरीर से दूर रखने के लिए हैंड्स-फ्री किट का उपयोग करें. आरएफ एक्सपोजर पर अधिक जानकारी, स्पष्टीकरण

और चर्चा के लिए, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर जाएं www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

डिवाइस के अधिकतम SAR मान के लिए कृपया www.hmd.com/sar देखें।

डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में

इस डिवाइस का उपयोग करते समय सभी कानूनों का पालन करें और स्थानीय कस्टम और कॉपीराइट सहित दूसरों की गोपनीयता और वैध अधिकारों का सम्मान करें। कॉपीराइट सुरक्षा आपको फोटो, संगीत और दूसरी सामग्री कॉपी करने, संशोधित करने या स्थानांतरित करने से रोक सकती है।

कॉपीराइट और अन्य नोटिस

कॉपीराइट और अन्य नोटिस

इस मार्गदर्शिका में वर्णित कुछ उत्पादों, सुविधाओं, अनुप्रयोगों और सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है और इसके लिए सक्रियण, साइन अप, नेटवर्क और/या इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक उपयुक्त सर्विस प्लान की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए, अपने डीलर या अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें। इस डिवाइस में ऐसी वस्तुएं, पौरद्व्योगिकी या सॉफ्टवेयर समाहित हो सकते हैं, जो यूएस तथा अन्य देशों के निर्यात कानून और विनियमों के अधीन हो सकते हैं। कानून के विरुद्ध विचलन पर प्रतिबंध है।

इस दस्तावेज़ की सामग्री "यथारूप" प्रदान की गई है। जब तक लागू कानून द्वारा आवश्यक न हो, इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी वॉरंटी, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, नहीं दी जाती, जिसमें वाणिज्यिकता और किसी खास प्रयोजन के लिए उपयुक्तता से संबंधित निहित वॉरंटियां भी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। HMD Global इस दस्तावेज़ में संशोधन करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, किसी भी परिस्थिति में HMD Global या उसका कोई लाइसेंसकर्ता किसी भी कारण से होने वाले डेटा या आय की हानि या विशिष्ट, आकस्मिक, परिणामी या अप्रत्यक्ष हानियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

HMD Global की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से या इसकी संपूर्ण सामग्री के पुनरुत्पादन, हस्तांतरण या वितरण पर प्रतिबंध है। HMD Global निरंतर विकास की नीति पर काम करता है। HMD Global बिना किसी पूर्व सूचना के इस दस्तावेज़ में वर्णित किसी भी उत्पाद में परिवर्तन और सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

HMD Global आपके डिवाइस के साथ प्रदान किए गए तृतीय-पक्ष ऐप्स की कार्यात्मकता, सामग्री या अंतिम-उपयोगकर्ता समर्थन का न तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, न कोई वॉरंटी प्रदान करता और न ही इनकी ज़िम्मेदारी लेता है। इस ऐप का उपयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि ऐप यथारूप प्रदान किया गया है।

मानचित्र, गेम्स, संगीत और वीडियो डाउनलोड करने और छवियां व वीडियो अपलोड करने में डेटा की बड़ी मात्रा खर्च हो सकती है। आपका सेवा प्रदाता आपसे डेटा ट्रांसमिशन का शुल्क ले सकता है। विशिष्ट उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग-अलग हो सकती है। अतिरिक्त विवरण और भाषा विकल्पों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें।

कुछ सुविधाएं, कार्यात्मकता और उत्पाद विवरण नेटवर्क आधारित हो सकते हैं और उन पर अतिरिक्त नियम, शर्तें और शुल्क लागू हो सकते हैं।

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

प्रदान किए गए सभी विनिर्देश, सुविधाएं और अन्य उत्पाद जानकारी में बिना किसी सूचना के बदलाव किया जा सकता है। HMD ग्लोबल गोपनीयता नीति, जो <https://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध है, डिवाइस के आपके उपयोग पर लागू होती है।

टीएम और © 2024 एचएमडी ग्लोबल। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Android, Google और अन्य संबंधित चिह्नित और लोगो Google LLC के ट्रेडमार्क हैं।

ब्ल्यूटूथ के शब्द चिह्न और लोगो पर Bluetooth SIG, Inc. का स्वामित्व है और HMD Global द्वारा ऐसे चिह्नों का किसी भी प्रकार का उपयोग लाइसेंस के अधीन किया जाता है।

OZO



OZO, Nokia Technologies Oy का ट्रेडमार्क है।

Qi2



Qi2 प्रतीक Wireless Power Consortium का ट्रेडमार्क है।

इस प्रोडक्ट में चुम्बक है और यह नवीनतम Qi v2.0 Magnetic Power Profile Standard का अनुपालन करता है।

वायरलेस चार्जिंग के लिए केवल Qi2-संगत चार्जर का उपयोग करें।

क्यूआई आईडी 21201 (टीए-1600) और 21649 (टीए-1688)।